


Constable GD in CAPFs NIA SSF and Rifleman GD in Assam Rifles Examination 2021




Roll Number	
Candidate Name	
Venue Name	Yuvi Online Solutions
Exam Date	18/11/2021
Exam Time :	9:00 AM - 10:30 AM
Subject	Constable GD 2021

Section : Part A General Intelligence and Reasoning

Q.1 नीचे दी गई आकृतियों में काराज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए काराज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। काराज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा?



Ans



Question ID : 65497833697

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.2 दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर रखा जा सकता है।

9, 14, 34, 114, ?, 1714

Ans 1. 654

2. 524

3. 434

4. 914

Question ID : 65497833691

Status : Answered


Chosen Option : 3



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Q.3 दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार XY पर रखा गया है।



Ans

✓ 1.




✗ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Question ID : 65497833685

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.4 L, M की माँ है। L की केवल दो संतानें हैं। N, M की बहन है। N, K की बेटी है। Z, K का पोता है। O, Z की माँ है। O, N से किस प्रकार संबंधित है?

Ans

✗ 1. बहन

✓ 2. भाभी

✗ 3. माँ

✗ 4. पत्नी

Question ID : 65497833688

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.5 उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी।

P E _ _ L E P _ _ P L E _ _ O P _ _

Ans

✗ 1. OPEOPLEE

✓ 2. OPEOPELE

✗ 3. OPOEPELE

✗ 4. OPOEEPLE

Question ID : 65497833690

Status : Answered

Chosen Option : 2



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

Q.6 चार अक्षर-समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरीके से समान हैं और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर-समूह को चुनिए।

- Ans 1. QSJ
 2. EGV
 3. RTI
 4. NTD

Question ID : 65497833682
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.7 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर-समूह से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर-समूह पहले अक्षर-समूह से संबंधित है।

DHM : GCX :: KOT : ?

- Ans 1. NKL
 2. NHD
 3. NJE
 4. NIE

Question ID : 65497833686
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.8 छः दोस्त A, B, C, D, E और F एक वृत्त में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर, एक-दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। C और D एक-दूसरे के निकट बैठे हैं। B और F भी एक-दूसरे के निकट बैठे हैं। E ठीक B के सम्मुख बैठा है। F, B के बाएं बैठा है। E और F के बीच में कौन बैठा है?

- Ans 1. A
 2. B
 3. F
 4. E

Question ID : 65497833680
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.9 दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं (अंक नहीं) को आपस में बदला जाना चाहिए?

$$5 \times 40 \div 8 + 3 - 14 = 53$$

- Ans 1. 8 और 14
 2. 8 और 3
 3. 5 और 8
 4. 5 और 3

Question ID : 65497833675
Status : Answered
Chosen Option : 3



Q.10 छह दोस्त, रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है। मोहन ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। रवि और काव्या के बीच तीन दोस्त बैठे हैं। काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठी है। बाएँ छोर से पाँचवें स्थान पर कौन बैठा/बैठी है?

- Ans
- 1. मोहन
 - 2. नेहा
 - 3. गीता
 - 4. काव्या

Question ID : 65497833673
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.11 'कपडे' का संबंध 'कपास' से उसी प्रकार है जैसे 'आटे' का संबंध '_____' से है।

- Ans
- 1. गेहूँ
 - 2. खाना
 - 3. चपाती
 - 4. टाइल्स


Question ID : 65497833679
Status : Answered
Chosen Option : 1



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS


[CLICK HERE](#)

Q.12 उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।




Ans


✗ 1.




✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Question ID : 65497833677
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.13 एक विशिष्ट कूट भाषा में, REMAIN को 92214261813 लिखा जाता है। इस भाषा में MACHINE का कूट क्या होगा?

Ans

✗ 1. 131389145

✗ 2. 514981313

✓ 3. 14262419181322

✗ 4. 22131819242614

Question ID : 65497833683
Status : Answered
Chosen Option : 3



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS




[CLICK HERE](#)

Q.14 उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है।

मनुष्य, नर, जीव

(H: मनुष्य; M: नर; A: जीव)

Ans



Question ID : 65497833681

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/ करते हैं।

कथन:

सभी पतंगें वायुयान हैं।
सभी वायुयान कागज़ हैं।

निष्कर्ष:

I. सभी पतंगें कागज़ हैं।
II. कोई भी कागज़ वायुयान नहीं है।

Ans ✗ 1. निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं।

✗ 2. केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है।

✗ 3. न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है।

✓ 4. केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है।

Question ID : 65497833694

Status : Answered

Chosen Option : 4



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BOOK' को 'CRTR' के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में 'PETROL' को किस रूप में लिखा जाएगा?

- Ans 1. QHYYXW
 2. QIXYYW
 3. HYXXW
 4. QHXYXW

Question ID : 65497833693
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.17 वह सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोष में दिखते हैं।

1. Goffer
2. Goblin
3. Goatling
4. Goatish
5. Goer

- Ans 1. 4, 3, 2, 5, 1
 2. 4, 2, 3, 5, 1
 3. 4, 3, 5, 2, 1
 4. 4, 2, 5, 3, 1

Question ID : 65497833689
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.18 एक विशिष्ट कूट भाषा में, 'LECTURE' को 'MGFXZXL' और 'TEACHER' को 'UGDGMKY' लिखा जाता है। इस भाषा में 'STUDENT' को क्या लिखा जाएगा?

- Ans 1. TVXJHTA
 2. TVWHJTA
 3. TVWJHTA
 4. TVXHJTA

Question ID : 65497833687
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.19 दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नचिह्न (?) का स्थान ले सकती है।

38, 42, 58, 94, ?, 258

- Ans 1. 158
 2. 152
 3. 108
 4. 164

Question ID : 65497833684
Status : Answered
Chosen Option : 1



Q.20 विकल्पों से वह चित्र चुनें जिसे प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर रखा जा सकता है और दिए गए पैटर्न को पूरा किया जा सकता है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।



Ans

1.



2.



3.



4.



Question ID : 65497833692
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.21 दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर-समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आ सकता है।

YEM, BHP, EKS, HNV, ?

Ans 1. KQY

2. LNU

3. KRX

4. KPZ

Question ID : 65497833678
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.22 If, $5 + 7 = 473 + 8 = 359 + 2 = 29$ then, $7 + 4 = ?$

Ans 1. 42

2. 37

3. 39

4. 45


Question ID : 65497833696
Status : Answered
Chosen Option : 3



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Q.23 एक ऐसे पासे की दो अलग-अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके सभी पृष्ठों पर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में से एक-एक संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या '9' दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी।



- Ans
- 1. 4
 - 2. 7
 - 3. 8
 - 4. 6

Question ID : 65497833676
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.24 दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आ सकती है।

7 343 3
5 ? 4
2 256 8

- Ans
- 1. 625
 - 2. 225
 - 3. 250
 - 4. 525

Question ID : 65497833695
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.25 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।

7 : 56 :: 13 : ?

- Ans
- 1. 104
 - 2. 78
 - 3. 92
 - 4. 67

Question ID : 65497833674
Status : Answered
Chosen Option : 1

Section : Part B General Knowledge and General Awareness